

शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली  
Directorate of Education, GNCT of Delhi

अभ्यास प्रश्न पत्र  
Practice Paper  
वार्षिक परीक्षा (2023-24)  
FINAL EXAMINATION (2023-24)  
कक्षा – XII  
Class - XII  
लेखांकन (कोड:055)  
Accountancy (Code: 055)

समय: 3 घंटे  
Time: 3 Hours

अधिकतम अंक: 80  
Maximum Marks: 80

सामान्य निर्देश:

1. इस प्रश्न पत्र में 34 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
2. यह प्रश्न पत्र दो भागों भाग ए और बी में विभाजित है।
5. प्रश्न संख्या 1 से 16 और 27 से 30 प्रत्येक के लिए 1 अंक है।
6. प्रश्न संख्या 17 से 20, 31 और 32 प्रत्येक के लिए 3 अंक हैं।
7. प्रश्न क्रमांक 21, 22 और 33 में से प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है
8. प्रश्न संख्या 23 से 26 और 34 तक प्रत्येक 6 अंक का है
9. कोई समग्र विकल्प नहीं है। हालाँकि, एक अंक वाले 7 प्रश्न, तीन अंक वाले 2 प्रश्न, चार अंक वाले 1 प्रश्न और छह अंक वाले 2 प्रश्न में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है।

GENERAL INSTRUCTIONS:

1. This question paper contains 34 questions. All questions are compulsory.
2. This question paper is divided into two parts, Part A and B.

5. Question Nos.1 to 16 and 27 to 30 carries 1 mark each.
6. Questions Nos. 17 to 20, 31and 32 carries 3 marks each.
7. Questions Nos. from 21 ,22 and 33 carries 4 marks each
8. Questions Nos. from 23 to 26 and 34 carries 6 marks each
9. There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 7 questions of one mark, 2 questions of three marks, 1 question of four marks and 2 questions of six marks.

भाग क  
(साझेदारी फर्मों और कंपनियों के लिए लेखांकन)

**PART A**  
**(Accounting for Partnership Firms and Companies)**

1. A, B और C साझेदार हैं जो लाभ और हानि को 5 : 3 : 2 के अनुपात में साझा करते हैं। यदि B सेवानिवृत्त हो गया, तो A और C का लाभ अनुपात होगा: -

- (a). 3 : 2
- (b). 2 : 1
- (c). 5 : 2
- (d). 2 : 3

(1)

A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5 : 3 : 2. If B retired, the gaining ratio of A and C will be:-

- (a). 3 : 2
- (b). 2 : 1
- (c). 5 : 2
- (d). 2 : 3

2. अभिकथन (A): किसी साझेदार के ऋण पर भुगतान किया गया ब्याज साझेदारी फर्म के लाभ और हानि विनियोजन खाते में दर्ज किया जाता है।

कारण (R): किसी साझेदार के ऋण पर दिया गया ब्याज साझेदारी फर्म के लिए लाभ पर प्रभार है।

निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें:

- (a). A और R दोनों सही हैं, और R, A की सही व्याख्या है।
- (b). A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- (c). A सही है लेकिन R गलत है।
- (d). A गलत है लेकिन R सही है।

(1)

**Assertion (A):** Interest paid on a Partner's loan is recorded in the Profit and Loss Appropriation Account of a partnership firm.

**Reason (R):** Interest paid on a Partner's loan is a Charge against profit for a partnership Firm.

Select the correct answer from the following :

- (a). Both A and R are correct, and R is the correct explanation of A.
- (b). Both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A.
- (c). A is correct but R is incorrect.
- (d). A is incorrect but R is correct.

3. एक कंपनी ने ₹ 30 प्रति अंश की पहली याचना का भुगतान न करने पर ₹ 100 मूल्य (₹ 70 याचित) के 200 अंश जब्त कर लिए। यदि कंपनी जब्त किये गये सभी अंशों को पुनः जारी करती है। तो , कंपनी जब्त किए गए अंशों को पुनः जारी करने के समय प्रति अंश अधिकतम छूट की अनुमति दे सकती है:
- (a). ₹ 40 प्रति शेयर
  - (b). ₹ 50 प्रति शेयर
  - (c). ₹ 20 प्रति शेयर
  - (d). ₹ 30 प्रति शेयर

अथवा

बी लिमिटेड ने एसबीआई बैंक से ₹ 10,00,000 का बैंक ऋण लिया। कंपनी ने इसके लिए सहायक प्रतिभूतियों के रूप में ₹ 100 प्रति मूल्य के ₹ 10,00,000 के 10% ऋणपत्र जारी किए। सहायक प्रतिभूतियों के रूप में ऋणपत्र जारी करने पर खाते से डेबिट किया जाएगा: -

- (a). 10% ऋणपत्र खाता
  - (b). ऋणपत्र उचंती खाता
  - (c). बैंक ऋण खाता
  - (d). इनमे से कोई भी नहीं
- (1)

A company forfeited 200 shares of ₹100 each ( ₹ 70 called up ) for non - payment of first call of ₹ 30 per share. If the company Re-issues all forfeited shares. Then, the company may allow maximum discount per share at the time of reissue of the forfeited shares:

- (a). ₹ 40 per share
- (b). ₹ 50 per share
- (c). ₹ 20 per share
- (d). ₹ 30 per share

OR

B Ltd obtained a bank loan of ₹ 10,00,000 from SBI bank. The company issued ₹ 10,00,000 , 10 % debentures of ₹ 100 each as Collateral Securities for the same. Account will be debited on issue of debentures as collateral securities : -

- (a). 10 % Debentures A/c
- (b). Debentures Suspense A/c
- (c). Bank Loan A/c
- (d). None of the above

4. X, Y और Z एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ को 2:2:1 के अनुपात में बाँटते हैं। उन्होंने भविष्य के लाभ को समान रूप से बाँटने का निर्णय लिया। उनके निवेश विपर्यय रिजर्व में ₹2,00,000 और उनके विज्ञापन उचंती खाते में ₹ 40,000 का शेष था। ये राशियाँ X, Y और Z के बीच अनुपात में वितरित की जाएंगी:

- (a). 2 : 2 : 1
- (b). 1 : 1 : 1
- (c). 5 : 3 : 2
- (d). इनमे से कोई भी नहीं

अथवा

यदि साझेदार की पूंजी स्थाई है तो निम्नलिखित में से कौन सा लेनदेन साझेदार के चालू खाते में डेबिट किया जाएगा?

- (a). साझेदारों का वेतन
  - (b). पूंजी पर ब्याज
  - (c). आहरण पर ब्याज
  - (d). अतिरिक्त पूंजी
- (1)

X, Y and Z are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2 : 2 : 1. They decided to share future profits equally. There was a balance of ₹2,00,000 in their Investment Fluctuation Reserve and ₹40,000 in their Advertisement Suspense A/c . These amounts will be distributed between X, Y and Z in the ratio of :

- (a). 2 : 2 : 1
- (b). 1 : 1 : 1
- (c). 5 : 3 : 2
- (d). None of the above

OR

Which one of the following transactions will be Debited in the Partner's Current Account, If partners capitals are fixed?

- (a). Partners Salaries
- (b). Interest on Capital
- (c). Interest on Drawings
- (d). Additional Capital Introduced

5. साझेदार के आहरण को डेबिट किया जाता है::

- (a). साझेदार का पूंजी खाता.
  - (b). लाभ - हानि खाता।
  - (c). साझेदार का ऋण खाता.
  - (d). लाभ और हानि समायोजन खाता.
- (1)

Partner's Drawings is debited to :

- (a). Partner's capital account.
- (b). Profit and Loss Account.
- (c). Partner's Loan Account.
- (d). Profit and Loss Appropriation account.

6. एफ लिमिटेड ने ₹100 प्रति मूल्य के ₹ 1,00,000, 10% ऋणपत्रों को 10% की छूट पर जारी किए। कंपनी के पास प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व में ₹ 6,000 का बैलेंस है। ऋणपत्रों पर छूट को इस प्रकार से अपलेखित किया जाएगा।

- (a). ₹10,000 प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व से
- (b). ₹ 10,000 लाभ और हानि के विवरण से
- (c). ₹ 6,000 प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व से और ₹ 4,000 लाभ और हानि के विवरण से
- (d). ₹ 5,000 प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व से और ₹ 5,000 लाभ और हानि के विवरण से

अथवा

यदि ₹ 10,00,000 के ऋणपत्रों को छूट पर जारी किए जाते हैं, परन्तु उनका शोधन 10% प्रीमियम पर होता है, तो देय प्रीमियम को जमा किया जाता है

- (a). ऋणपत्र उचंति खाता
- (b). ऋणपत्रों के शोधन का प्रीमियम खाता
- (c). ऋणपत्र को हानि पर जारी करने का खाता
- (d). इनमें से कोई भी नहीं

(1)

F Ltd. Issued ₹ 1,00,000, 10% Debentures of ₹ 100 each at a discount of 10 %. The company has a balance in Securities Premium Reserve of ₹ 6,000. Discount on Issue of Debentures will be written off as

- (a). ₹ 10,000 from Securities Premium Reserve
- (b). ₹ 10,000 from Statement of Profit and Loss
- (c). ₹ 6,000 from Securities Premium Reserve and ₹ 4,000 from Statement of Profit and Loss
- (d). ₹ 5,000 from Securities Premium Reserve and ₹ 5,000 from Statement of Profit and Loss

OR

In case debentures of ₹ 10,00,000 are issued at Discount but redeemable at a premium of 10%, the premium payable is Credited to

- (a). Debentures Suspense Account
- (b). Premium on Redemption of Debentures Account
- (c). Loss on Issue of Debentures Account
- (d). None of the above

7. अभिकथन (A): अधिकृत शेयर पूंजी निर्गमित शेयर पूंजी से अधिक या उसके बराबर हो सकती है।  
कारण (R): कोई कंपनी अपनी अधिकृत पूंजी से अधिक पूंजी के शेयर जारी नहीं कर सकती।
- (a). अभिकथन A और कारण R दोनों सही हैं, और कारण R, अभिकथन A की सही व्याख्या है।  
(b). अभिकथन A और कारण R दोनों सही हैं, लेकिन कारण R, अभिकथन A की सही व्याख्या नहीं है।  
(c). अभिकथन A गलत है लेकिन कारण R सही है।  
(d). अभिकथन A सही है लेकिन कारण R गलत है। (1)

**Assertion (A) :-** Authorised Share Capital can be more than or equal to Issued share Capital.

**Reason (R) :-** A company cannot issue shares for more capital than its Authorised Capital.

- (a). Both Assertion (A) and Reason (R) are Correct and Reason (R) is the correct explanation of Assertion (A)  
(b). Both Assertion (A) and Reason (R) are Correct, but Reason (R) is not the correct explanation of Assertion (A)  
(c). Assertion (A) is incorrect, but Reason (R) is correct.  
(d). Assertion (A) is correct, but Reason (R) is incorrect

8. T और S साझेदार हैं जो 7:3 के अनुपात में लाभ और हानि का विभाजन करते हैं। उन्होंने एक चौथाई हिस्से के लिए Z को एक नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। यदि R अपने हिस्से की ख्याति ₹ 10,000 लाता है। Z के प्रवेश के समय फर्म की ख्याति का मूल्य होगा:
- (a). ₹10,000  
(b). ₹ 20,000  
(c). ₹ 40,000  
(d). ₹ 1,00,000

अथवा

एम और एन क्रमशः ₹ 1,000 और ₹ 2,000 के मासिक वेतन के हकदार भागीदार हैं। यदि वर्ष के लिए लाभ ₹ 18,000 था। एम और एन को प्राप्त वेतन की राशि होगी:

- (a). ₹ 10,000 और ₹ 8,000  
(b). ₹ 8,000 और ₹ 10,000  
(c). ₹ 6,000 और ₹ 12,000  
(d). ₹ 12,000 और ₹ 24,000 (1)

T and S are the partners sharing profits and losses in the ratio of 7:3. They admitted Z as a new partner for one fourth share. If R brings his share of goodwill ₹ 10,000. The Value of firm's goodwill of the firm at the time of Z's admission will be :

- (a). ₹ 10,000  
(b). ₹ 20,000  
(c). ₹ 40,000  
(d). ₹ 1,00,000

OR

M and N are partners entitled to a monthly salary of ₹ 1,000 and ₹ 2,000 respectively. If profit for the year were ₹ 18,000. The amount of Salaries received by M and N will be :

- (a). ₹ 10,000 and ₹ 8,000
- (b). ₹ 8,000 and ₹ 10,000
- (c). ₹ 6,000 and ₹ 12,000
- (d). ₹ 12,000 and ₹ 24,000

निम्नलिखित काल्पनिक स्थिति को पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्न संख्या 9 और 10 के उत्तर दीजिए।

X और Y दो साझेदार हैं। A ने अपने घर के किराए का भुगतान करने के लिए प्रत्येक तिमाही के अंत में ₹ 5,000 त्रैमासिक निकाले। और Y ने अपने बेटे की स्कूल फीस का भुगतान करने के लिए हर महीने के आरम्भ में ₹ 2,000 मासिक निकाले। साझेदारी विलेख में दी गई आहरण पर ब्याज दर 12% प्रति वर्ष है।

**Read the following hypothetical situation, answer question no. 9 and 10.**

X and Y are two partners. A withdrew ₹ 5,000 quarterly at the end of every quarter for making payment of his house rent. And Y withdrew ₹ 2,000 monthly at the beginning of every month for making payment for the school fees of his son. Rate of interest on drawings given in the partnership deed is 12% p.a.

**9.** X के आहरण पर ब्याज होगा

- (a). ₹ 2,000
- (b). ₹ 1,200
- (c). ₹ 900
- (d). ₹ 1,800

(1)

Interest on X's drawings will be

- (a). ₹ 2,000
- (b). ₹ 1,200
- (c). ₹ 900
- (d). ₹ 1,800

**10.** Y के आहरण पर ब्याज ..... महीने के लिए लिया जाएगा

- (a). 6.5 महीने
- (b). 6 महीने
- (c). 5.5 महीने
- (d). 3 महीने

(1)

Interest on Y's drawings will be charged for .....months

- (a). 6.5 months
- (b). 6 months
- (c). 5.5 months
- (d). 3 months



11. साझेदारों की पूंजी परिवर्तनशील होने पर उनके पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाई जाने वाली मदें :

- (i). साझेदारों का वेतन
- (ii). साझेदारों का कमीशन
- (iii). आहरण पर ब्याज
- (iv). पूंजी पर ब्याज

सही विकल्प चुनें:

- (a). केवल (i),( ii) और (iv)
- (b). केवल (ii) और (iii).
- (c). केवल (iii)
- (d). केवल (i) और (iii)

(1)

Items shown on credit side of partners' Capital account when their capital are fluctuating :

- (i). Partners Salary
- (ii) Partners Commission
- (iii) Interest on Drawings
- (iv). Interest on Capital

**Choose the correct option:**

- (a). Only (i),( ii) and (iv)
- (b). Only (ii) and (iii)
- (c). Only (iii)
- (d). Only (i) and (iii)

12. बी लिमिटेड ने डी लिमिटेड की संपत्ति ₹ 10,80,000 में खरीदी। चेक द्वारा ₹ 1,80,000 का भुगतान किया गया और शेष राशि 10% छूट पर ₹ 100 के 10% ऋणपत्र जारी करके दी गई। ऋणपत्र पर बट्टे खाते को डेबिट किया जायेगा

- (a). ₹ 1,00,000
- (b). ₹ 2,00,000
- (c). ₹ 80,000
- (d). इनमें से कोई भी नहीं

(1)

B Ltd. purchased the assets of D Ltd. for ₹ 10,80,000. Paid ₹ 1,80,000 by cheque and the balance amount by issuing 10 % debentures of ₹100 each at 10% discount.

Discount on issue of debentures account will be debited by:

- (a). ₹ 1,00,000
- (b). ₹ 2,00,000
- (c). ₹ 80,000
- (d). None of the above

- 13.** XY कंपनी ने सममूल्य पर ₹ 100 प्रति मूल्य के 12,000 समता अंश जारी किए। राशि निम्नानुसार देय थी:

आवेदन पर ₹ 30; आवंटन पर ₹ 20; प्रथम याचना पर ₹ 40 और अंतिम याचना पर ₹ 10 प्रति शेयर। 18,000 शेयरों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदकों को आनुपातिक आधार पर आवंटन किया गया। अतिरिक्त धनराशि आवंटन पर हस्तांतरित कर दी गई। यदि सभी देय राशियाँ विधिवत प्राप्त हुई थीं, तो आवंटन पर कितनी राशि नकद प्राप्त हुई थी?

- (a). ₹ 60,000  
(b). ₹ 20,000  
(c). ₹ 10,000  
(d). ₹ 12,000

(1)

XY company issued 12,000 equity shares of ₹ 100 each at par value. Amount were payable as under:

On application ₹ 30; on allotment ₹ 20; on first call ₹ 40 and on final call ₹ 10 per share. Applications were received for 18,000 shares. Allotment was made on a pro-rata basis with all applicants. Excess money was transferred on allotment. How much amount was received in cash on allotment, if all due amounts were duly received?

- (a). ₹ 60,000  
(b). ₹ 20,000  
(c). ₹ 10,000  
(d). ₹ 12,000

- 14.** F और Q क्रमशः ₹ 4,00,000 और ₹ 8,00,000 के साथ एक फर्म में साझेदार हैं। उन्होंने 1/5 हिस्से के लिए Z को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। Z अपने हिस्से की ख्याति के लिए ₹ 50,000 लाता है और उसे लाभ में 1/5वें हिस्से के लिए आनुपातिक पूंजी लाने की आवश्यकता होती है। Z का पूंजी योगदान होगा:

- (a). ₹ 2,12,500.  
(b). ₹ 3,12,500.  
(c). ₹ 2,00,000.  
(d). ₹ 1,40,000.

(1)

F and Q are partners in a firm with capital of ₹ 4,00,000 and ₹ 8,00,000 respectively. They admitted Z as new partner for 1/5 th share. Z brings ₹ 50,000 for his share of goodwill and he is required to bring proportionate capital for 1/5 th share in profits. The capital contribution of Z will be:

- (a). ₹ 2,12,500.  
(b). ₹ 3,12,500.  
(c). ₹ 2,00,000.  
(d). ₹ 1,40,000.

15. A और B साझेदार हैं। साझेदारी विलेख के अनुसार उनके बीच लाभ इस प्रकार वितरित किया जाएगा - पहले ₹ 1,00,000 समान रूप से और शेष राशि 5: 3 के अनुपात में। यदि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए फर्म का लाभ ₹ 2,60,000 था। A और B के बीच वितरित लाभ का हिस्सा होगा:
- (a). ₹ 1,50,000 और ₹ 1,10,000
  - (b). ₹ 1,30,000 और ₹ 1,30,000
  - (c). ₹ 1,20,000 और ₹ 1,40,000
  - (d). ₹ 2,00,000 और ₹ 60,000

अथवा

X और Y की एक फर्म थी जिसमें उन्होंने ₹ 2,00,000 का निवेश किया था। औसत लाभ ₹ 50,000 था। उद्योग में कमाई की सामान्य दर @20% है। ख्याति का मूल्यांकन अधि लाभ की 3 साल की खरीदारी पर किया जायेगा। ख्याति का मूल्य होगा:

- (a). ₹ 40,000
  - (b). ₹ 30,000
  - (c). ₹ 34,000
  - (d). इनमें से कोई भी नहीं
- (1)

A and B are partners. As per partnership deed profit will be distributed between them as - first ₹ 1,00,000 equally and rest amount in the ratio of 5 : 3. If the profit of the firm for the year ended 31 March, 2023 was ₹ 2,60,000. The profit share distributed between A and B will be :

- (a). ₹ 1,50,000 and ₹ 1,10,000
- (b). ₹ 1,30,000 and ₹ 1,30,000
- (c). ₹ 1,20,000 and ₹ 1,40,000
- (d). ₹ 2,00,000 and ₹ 60,000

OR

X and Y had a firm in which they had invested ₹ 2,00,000. On an average, the profits were ₹ 50,000. The usual rate of earning in the industry is @20%. Goodwill is to be valued at 3 years' purchases of super profit. Value the goodwill will be :

- (a). ₹ 40,000
- (b). ₹ 30,000
- (c). ₹ 34,000
- (d). None of the above

16. इस अवस्था को छोड़कर हमेशा स्थिति विवरण में दी गई ख्याति पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में स्थानांतरित की जाती है:
- (a). साझेदारी फर्म का विघटन
  - (b). नये साझेदार का प्रवेश
  - (c). एक साझेदार की सेवानिवृत्ति
  - (d). साझेदार की मृत्यु
- (1)

Goodwill given in the Balance Sheet is always transferred to old partners capital account except this case:

- Dissolution of Partnership Firm
- Admission of a new partner
- Retirement of a partner
- Death of a partner

17. X, Y और Z साझेदार हैं जो लाभ और हानि को 3:2:1 के अनुपात में बाँटते हैं। Y सेवानिवृत्त होता है और Y की सेवानिवृत्ति की तिथि पर ख्याति का मूल्य ₹ 90,000 है। ख्याति पहले से ही ₹ 60,000 के मूल्य पर पुस्तकों में प्रदर्शित है। X और Y का नया अनुपात 3:2 है। रिक्त स्थान भरें और लाभ अनुपात की गणना करें।

तिथि	विवरण	एल. एफ	नाम (₹)	जमा (₹)
(i)	X का पूंजी खाता नाम Y का पूंजी खाता नाम Z का पूंजी खाता नाम ख्याति खाता जमा (ख्याति खाता अपलेखित किया गया )		...(a)..... 20,000 ...(b).....	60,000
(ii)	X का पूंजी खाता नाम Z का पूंजी खाता नाम Y का पूंजी खाता जमा (X और Z के पूंजी खातों से Y की ख्याति समायोजित की गयी )		9,000 ...(c).....	...(d).....

(3)

X, Y and Z are partners' sharing profit and losses in the ratio of 3 : 2 : 1 . Y retires and on the date of Y's retirement goodwill is valued at ₹ 90,000. Goodwill already appears in the books at a value of ₹ 60,000. New ratio of X and Y is 3 : 2. Fill in the blanks and calculate gaining ratio.

Date	Particulars	L.F	Dr. (₹)	Cr. (₹)
(i)	X's Capital A/c Dr. Y's Capital A/c Dr. Z's Capital A/c Dr. To Goodwill A/c (For Goodwill written off)		...(a)..... 20,000 ...(b).....	60,000
(ii)	X's Capital A/c Dr. Z's Capital A/c Dr. To Y's Capital A/c (For adjustment of Y's Goodwill share from capital accounts of X and Z )		9,000 ...(c).....	...(d).....

- 18.** X और Y साझेदार हैं जो लाभ और हानि को 3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। 1 अप्रैल, 2022 को उनकी पूंजी क्रमशः ₹ 1,000,000 और ₹ 2,00,000 थी। वित्तीय वर्ष के अंत में, यह ज्ञात हुआ कि पूंजी पर ब्याज 12% के स्थान 10% गलत तरीके से जमा किया गया था। उपरोक्त त्रुटि को सुधारने के लिए रोजनामचा प्रविष्टि करें। अपने कार्य को स्पष्ट रूप से दिखाएं।

अथवा

A, B और C 3:2:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। A को प्रति वर्ष ₹1,80,000 के न्यूनतम लाभ की गारंटी दी जाती है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए फर्म को ₹ 60,000 की हानि हुई। फर्म की पुस्तकों में रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें। (3)

X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3 : 2. Their capital on 1st April, 2022 were ₹ 1,000,000 and ₹ 2,00,000 respectively. At the end of the financial year , it was discovered that interest on capital was wrongly credited to them by 10 % instead of 12 %. Pass journal entry to rectify above error. Show your working clearly.

OR

A, B and C are partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. A is guaranteed a minimum profit of ₹1,80,000 per annum. The firm incurred loss for the year ended 31st March, 2023 of ₹ 60,000. Pass journal entries in the books of the firm.

- 19.** यू लिमिटेड ने जी लिमिटेड से ₹ 6,30,000 प्रतिफल पर, ₹ 3,00,000 का एक भवन, ₹ 2,80,000 की मशीन और ₹ 20,000 का फर्नीचर और ₹ 40,000 की देनदारियों को खरीदा। यू लिमिटेड ने प्रतिफल का भुगतान 11% वाले ₹ 100 मूल्य के ऋणपत्रों को 5% प्रीमियम पर जारी करके किया। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।

अथवा

1 अप्रैल, 2023 को, सना लिमिटेड ने 10% की छूट पर ₹ 100 मूल्य के 25,000, 9% ऋणपत्र जारी किए, जिनका 5 वर्षों के बाद 10% के प्रीमियम पर शोधन होगा। कंपनी के प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षित खाते में ₹ 2,00,000 का शेष है। ऋणपत्र जारी करने और ऋणपत्र जारी करने पर छूट/हानि को अपलेखित करने के लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।

(3)

U Ltd., purchased a building worth ₹ 3,00,000, machinery worth ₹ 2,80,000 and furniture worth ₹ 20,000 from G Ltd., and took over its liabilities of ₹ 40,000 for a purchase consideration of ₹ 6,30,000. U Ltd. paid the purchase consideration by issuing 11% debentures of ₹ 100 each at a premium of 5%. Record necessary journal entries.

OR

On April 1, 2023, Sana Ltd. issued 25,000, 9% debentures of ₹ 100 each at a discount of 10% , redeemable at a premium of 10 % after 5 years. The company has a balance of ₹ 2,00,000 in securities premium reserve account. Pass necessary

journal entries for issue of debentures and to write-off discount/Loss on issue of debentures.

20. अली और बद्री एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ बाँटने वाले साझेदार थे। 1 अप्रैल, 2023 को उन्होंने चौहान को एक नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। उनका नया लाभ विभाजन अनुपात 5:3:2 था, उस तिथि को फर्म के सामान्य आरक्षित निधि में ₹ 50,000 का शेष था, लाभ और हानि खाते में ₹ 40,000 का डेबिट शेष था। और फर्म के विज्ञापन उचंति खाते में ₹ 20,000 डेबिट शेष था। उपरोक्त के वितरण के संबंध में आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें।

(3)

Ali and Badri were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. On April 1, 2023 they admitted Chauhan as a new partner. Their new profit sharing ratio was 5:3:2. On that date there was a balance of ₹ 50,000 in general reserve, a debit balance of ₹ 40,000 in the profit and loss account and ₹ 20,000 debit balance in advertisement suspense account of the firm. Pass necessary journal entries regarding distribution of above items.

21. ओके लिमिटेड की अधिकृत पूंजी ₹ 15,00,000 है जिसे ₹ 10 प्रति मूल्य के समता अंशों में विभाजित किया गया है। कंपनी ने 1,00,000 अंश जारी करने के लिए आवेदन आमंत्रित किये। 95,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। सभी याचनाएं की गईं 5,000 अंशों पर ₹ 2 प्रति अंश की पहली और अंतिम याचना को छोड़कर सभी याचनाएं विधिवत प्राप्त हुईं। ये अंश जब्त कर लिए गए। बाद में जब्त किए गए अंशों में से 4,000 को ₹ 12 प्रति अंश की दर से जारी कर दिया गया।

(a) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III, भाग I के अनुसार कंपनी के स्थिति विवरण में 'शेयर पूंजी' दर्शाइए।

(b) इसके लिए 'खाते पर नोट्स' भी तैयार करें

(4)

OK Ltd. has an authorised capital of ₹ 15,00,000 divided into equity shares of ₹ 10 each. The company invited applications for issuing 1,00,000 shares. Applications for 95,000 shares were received. All calls were made and duly received except the first and final call of ₹ 2 per share on 5,000 shares. These shares were forfeited. Later on 4,000 out of the forfeited shares reissued at ₹ 12 per share.

(a) Present the 'Share Capital' in the company balance sheet as per Schedule III, Part I of the Companies Act, 2013.

(b) Also prepare 'Notes to Accounts' for the same

22. N, K और R एक फर्म में साझेदार थे और लाभ तथा हानि को 3:2:1 के अनुपात में बाँट रहे थे। न्यायालय के आदेश पर 31 मार्च 2023 को फर्म का विघटन कर दिया गया। वसूली खाते में संपत्तियों (नकद के अलावा) और बाहरी देनदारियों के हस्तांतरण के बाद, निम्नलिखित लेनदेन हुए:

(a) N द्वारा ₹ 25,000 का बकाया वेतन का भुगतान किया गया था।

(b) ₹ 60,000 के लेनदारों ने अपने दावे के पूर्ण निपटान में ₹ 65,000 पर स्टॉक स्वीकार किया।

(c) K ने फर्म को ₹ 20,000 का ऋण दिया था जिसका भुगतान उसे कर दिया गया था।

(d) फर्म के विघटन पर खर्च ₹ 9,000 था और R द्वारा भुगतान किया गया था। फर्म की पुस्तकों में उपरोक्त लेनदेन के लिए आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ दर्ज करें।

(4)

N, K and R were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. The firm was dissolved on 31<sup>st</sup> March, 2023 by the order of the court. After transfer of assets (other than cash) and external liabilities to Realisation Account, the following transactions took place :

(a) An outstanding salary of ₹ 25,000 was paid by N.

(b) Creditors of ₹ 60,000 accepted stock at ₹ 65,000 in full settlement of their claim.

(c) K had given a loan of ₹ 20,000 to the firm which was paid to him.

(d) Expenses on dissolution of the firm amounted to ₹ 9,000 and were paid by R.

Pass the necessary Journal Entries for the above transactions in the books of the firm.

**23.** नरेश लिमिटेड लिमिटेड की पुस्तकों में निम्नलिखित लेनदेन की रोजनामचा प्रविष्टियाँ करें:

(a). ₹ 10 प्रति मूल्य के 1,000 अंशों जिन्हें ₹ 1 के प्रीमियम पर जारी किया गया था ₹ 6 प्रति अंश (प्रीमियम सहित) की आवंटन राशि का भुगतान न करने पर जब्त कर लिया गया। इन अंशों पर ₹ 2 प्रति अंश की पहली और अंतिम याचना नहीं की गई थी। जब्त किए गए शेयरों को ₹ 8 प्रति अंश के मूल्य पर पूर्ण चुकता के रूप में पुनः निर्गमित किया गया।

(b). ₹ 4 प्रति अंश के प्रीमियम पर जारी किए गए ₹ 10 प्रति मूल्य के 300 अंशों को ₹ 6 प्रति अंश (₹ 2 प्रीमियम सहित) की आवंटन राशि का भुगतान न करने पर जब्त कर लिया गया। ₹ 4 प्रति अंश (₹ 2 प्रीमियम सहित) की पहली और अंतिम याचना नहीं की गई थी। जब्त किए गए अंश को पूर्ण चुकता के रूप में ₹ 2 प्रति अंश की छूट पर पुनः निर्गमित किया गया।

(3+3)

अथवा

एसके लिमिटेड ने ₹ 100 प्रत्येक के 50,000 समता अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। अंश ₹ 10 प्रति अंश के प्रीमियम पर जारी किए गए थे। राशि इस प्रकार देय थी:

आवेदन और आवंटन पर - ₹ 70 प्रति अंश ( ₹ 10 प्रीमियम सहित)

पहली और अंतिम याचना पर - शेष

80,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। 10,000 अंशों के आवेदन निरस्त कर दिए गए और शेष आवेदकों को निम्नलिखित आधार पर आनुपातिक आवंटन किया गया:

(i) 60,000 अंशों के लिए आवेदकों को 40,000 अंश आवंटित किए गए।

(ii) 10,000 अंशों के लिए आवेदकों को 10,000 अंश आवंटित किए गए।

आवेदन और आवंटन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि को याचना पर देय राशि के साथ समायोजित किया जाना था। पी, जो पहली श्रेणी से संबंधित था उसे 400 शेयर आवंटित किए गए थे, पहली और अंतिम याचना का भुगतान करने में विफल रहा। उनके शेयर जब्त कर लिये गये। जब्त किए गए अंशों को पूर्ण भुगतान के रूप में ₹ 120 प्रति अंश के मूल्य से पुनः जारी किया गया।

कंपनी की पुस्तकों में उपरोक्त लेनदेन के लिए आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दर्ज करें।  
(6)

Journalise the following transactions in the books Naresh Ltd.:

- (a). 1,000 shares of ₹ 10 each issued at a premium of ₹ 1 were forfeited for the non-payment of allotment money of ₹ 6 per share (including premium). The first and final call of ₹ 2 per share on these shares were not made. The forfeited shares were reissued at ₹ 8 per share as fully paid-up.
- (b). 300 shares of ₹ 10 each issued at a premium of ₹ 4 per share were forfeited for non-payment of allotment money of ₹ 6 per share (including premium ₹ 2). The first and final calls of ₹ 4 per share (including premium ₹ 2 ) were not made. The forfeited shares were reissued at a discount of ₹ 2 per share fully paid-up.

OR

SK Ltd invited applications for issuing 50,000 equity shares of ₹ 100 each. The shares were issued at a premium of ₹ 10 per share. The amount was payable as follows:

On application and allotment – ₹ 70 per share (including premium ₹ 10)

On the first and final call – Balance

Applications for 80,000 shares were received. Applications for 10,000 shares were rejected and pro-rata allotment was made to the remaining applicants on the following basis

(i) Applicants for 60,000 shares were allotted 40,000 shares.

(ii) Applicants for 10,000 shares were allotted 10,000 shares.

Excess amount received on application and allotment was to be adjusted against sums due on call. P, who belonged to the first category and was allotted 400 shares, failed to pay the first and final call money. His shares were forfeited. The forfeited shares were re-issued ₹ 120 per share as fully paid-up.

Pass necessary Journal Entries for the above transactions in the books of the company.

24. A और B, 3:2 के अनुपात में लाभ और हानि बाँटने वाले साझेदार हैं। 31 मार्च, 2023 को उनका स्थिति विवरण इस प्रकार है:

देयताएं	₹	सम्पतियाँ	₹
---------	---	-----------	---



पूंजी:			ख्याति	1,00,000
A	5,00,000		देनदार	3,00,000
B	<u>7,00,000</u>	12,00,000	फर्नीचर	1,20,000
लेनदार		3,00,000	स्टॉक	4,40,000
देय बिल		2,00,000	निवेश	3,20,000
लाभ और हानि खाता		1,00,000	मशीनरी	3,40,000
			नकद	1,80,000
		<b><u>18,00,000</u></b>		<b><u>18,00,000</u></b>

उन्होंने C को निम्नलिखित शर्तों पर साझेदारी में शामिल किया:

- (i). C केवल ₹ 4,00,000 की अपनी पूंजी लाता है, वह अपनी ख्याति का 1/3 वां हिस्सा नकद में लाने में असमर्थ है।
- (ii). फर्म की ख्याति का मूल्य ₹ 1,80,000 है।
- (iii). श्रमिक मुआवजे के लिए ₹ 20,000 का दावा किया गया था।
- (iv). ₹10,000 का एक अलिखित कंप्यूटर था।
- (v). फर्नीचर और मशीनरी पर 10% मूल्यहास लगाया जाएगा।
- (vi). स्टॉक का मूल्यांकन ₹ 20,000 से अधिक है।

C के प्रवेश पर फर्म की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ पास करें

अथवा

P, Q और R का स्थिति विवरण 31 मार्च, 2023 को इस प्रकार था :

देयताएं	₹	सम्पतियाँ	₹
---------	---	-----------	---

लेनदार	5,00,000	बैंक में नकदी		2,00,000
निवेश विपर्यय रिजर्व	50,000	विविध देनदार	2,00,000	
लाभ और हानि खाता	1,20,000	कम :- प्रावधान	<u>20,000</u>	1,80,000
पूंजी खाते:-		स्टॉक		1,00,000
P	4,00,000	अचल संपत्तियां		8,30,000
Q	3,00,000	निवेश		2,00,000
R	2,00,000	ख्याति		60,000
	<b><u>15,70,000</u></b>			<b><u>15,70,000</u></b>

1 अप्रैल, 2023 को R सेवानिवृत्त हो गया और निम्नलिखित समायोजनों पर सहमति हुई:

- अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन ₹ 10,00,000 पर किया गया। सभी देनदार अच्छे हैं।
- निवेश में 40% की कमी आई।
- स्टॉक 90% तक कम हो गया था।
- फर्म की ख्याति का मूल्य ₹ 90,000 है।
- R को तुरंत ₹ 1,60,000 का भुगतान किया जाएगा और शेष राशि उसके ऋण खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
- P और Q का नया अनुपात 2:1 होगा।

पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदारों के पूंजी खाते तैयार करें।

(6)

A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. On 31st March, 2023 their Balance Sheet is as follows :

Liabilities		₹	Assets		₹
Capitals:			Goodwill		1,00,000
A	5,00,000		Debtors		3,00,000
B	<u>7,00,000</u>	12,00,000	Furniture		1,20,000
Creditors		3,00,000	Stock		4,40,000
Bills Payable		2,00,000	Investments		3,20,000
Profit and Loss A/c		1,00,000	Machinery		3,40,000
			Cash		1,80,000

	<u>18,00,000</u>		<u>18,00,000</u>
--	------------------	--	------------------

They admitted C into partnership on the following terms:

- (i). C brings only his capital of ₹ 4,00,000 he is unable to bring his 1/3rd share of goodwill in cash.
- (ii). Goodwill of the firm is valued at ₹ 1,80,000.
- (iii). There was a claim of ₹ 20,000 for Workmen's Compensation.
- (iv). There was an unrecorded Computer of ₹ 10,000.
- (v). Furniture and machinery to be depreciated by 10%.
- (vi). Stock is overvalued by ₹ 20,000.

Pass Journal Entries in the books of the firm on admission of C

**OR**

The Balance Sheet of P, Q and R as at March 31, 2023 stood as follows:

Liabilities	₹	Assets	₹
Creditors	5,00,000	Cash at Bank	2,00,000
Investment Fluctuation		Sundry Debtors	2,00,000
Reserve	50,000	Less :- Provision	<u>20,000</u>
Profit and Loss A/c	1,20,000	Stock	1,00,000
Capitals Accounts:-		Fixed Assets	8,30,000
P	4,00,000	Investment	2,00,000
Q	3,00,000	Goodwill	60,000
R	2,00,000		
	<u>15,70,000</u>		<u>15,70,000</u>

R retired on 1st April , 2023 and the following adjustments were agreed upon:

- (i). Fixed assets revalued at ₹ 10,00,000. All the Debtors are good.
- (ii). Investment decreased by 40%.
- (iii). Stock was reduced to 90%.
- (iv). Goodwill of the firm is valued at ₹ 90,000.
- (v). R shall be paid ₹ 1,60,000 immediately and balance transferred to his loan account.
- (vi). The new ratio of P and Q would be 2:1.

Prepare Revaluation Account and the Partners' Capital Accounts.

25. X, Y और Z एक फर्म में 4:4:2 के अनुपात में लाभ और हानि साझा करने वाले साझेदार थे। 31 मार्च, 2023 को उनका स्थिति विवरण इस प्रकार था :

देयताएं	₹	संपत्ति	₹
लेनदार	50,000	भूमि एवं भवन	2,10,000
सामान्य रिजर्व	1,00,000	प्लांट	1,90,000
श्रमिक क्षतिपूर्ति रिजर्व		स्टॉक	30,000
पूंजी :-		निवेश	1,70,000
X	1,60,000	ख्याति	1,20,000
Y	1,50,000		
Z	1,40,000		
	<b>7,20,000</b>		<b>7,20,000</b>

Z की मृत्यु 30 जून, 2023 को हो गई। साझेदार की मृत्यु पर साझेदारी विलेख में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

- (i). फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले चार वर्षों के औसत लाभ की 3 वर्ष की खरीद पर किया जाना था जो कि ₹ 50,000 था।
- (ii). मृत्यु की तारीख तक Z के लाभ या हानि में हिस्से की गणना बिक्री के आधार पर की जानी थी। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बिक्री की राशि ₹ 4,00,000 और वह 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 तक की राशि ₹ 1,50,000 थी। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ था ₹ 2,00,000.
- (iii). पूंजी पर 10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज प्रदान किया जाना था।  
Z का पूंजी खाता उसके वारिस को सौंपने के लिए तैयार करें।

(6)

X, Y and Z were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4 : 4 : 2. On 31st March, 2023 their Balance Sheet was as under :

Liabilities	₹	Assets	₹
-------------	---	--------	---

Creditors	50,000	Land and Building	2,10,000
General Reserve	1,00,000	Plant	1,90,000
Workmen Compensation Reserve	1,20,000	Stock	30,000
Capitals:-		Investment	1,70,000
X	1,60,000	Goodwill	1,20,000
Y	1,50,000		
Z	1,40,000		
	<b><u>7,20,000</u></b>		<b><u>7,20,000</u></b>

Z died on 30th June, 2023. The partnership deed provided for the following, on the death of a partner :

- (i). Goodwill of the firm was to be valued at 3 years purchase of average profits of the previous four years which were ₹ 50,000.
  - (ii). Z's share of profit or loss till date of death was to be calculated on the basis of sales. Sales for the year ended 31st March, 2023 amounted to ₹ 4,00,000 and that from 1st April, 2023 to 30th June, 2023 amounted to ₹ 1,50,000. The profit for the year ended 31st March, 2023 was ₹ 2,00,000.
  - (iii). Interest on capital was to be provided @ 10% p.a.
- Prepare Z's Capital Account to be rendered to his executor.

**26.** निम्नलिखित लेनदेन के लिए विधान लिमिटेड की पुस्तकों में ऋणपत्र जारी करने से संबंधित आवश्यक रोज़नामचा प्रविष्टियाँ करें:

- (i). 1,000, प्रत्येक ₹100 के 10% ऋणपत्रों को 5% छूट पर जारी किया गया, जिनका शोधन 10% के प्रीमियम पर किया जायेगा।
- (ii). 5,000, प्रत्येक ₹ 100 के 8% ऋणपत्रों को 5% प्रीमियम पर जारी किया गया, जिनका शोधन 10% के प्रीमियम पर किया जायेगा।
- (iii). 4,000, प्रत्येक ₹ 100 के 9% ऋणपत्रों को 5% छूट पर जारी किया गया, जिनका शोधन अंकित मूल्य पर किया जायेगा।

**(2+2+2)**

Pass necessary journal entries relating to the issue of debentures in the books of Vidhan Ltd. for the following transactions :

- (i). 1,000, 10 % Debentures of ₹ 100 each are issued at 5% discount, redeemable at a premium of 10%.
- (ii). 5,000, 8 % Debentures of ₹ 100 each are issued at 5% premium, redeemable at a premium of 10%.

- (iii). 4,000, 9 % Debentures of ₹ 100 each are issued at 5% discount, redeemable at par.

भाग ब  
(वित्तीय विवरणों का विश्लेषण)

**PART B**  
**(Analysis of Financial Statements)**

27. निम्नलिखित में से किन मदों को चालू परिसंपत्तियों में शामिल किया जाता है लेकिन तरल परिसंपत्तियों में नहीं:

- (a). पूर्वदात खर्चे  
(b). वस्तुसूची  
(c). नकदी  
(d). दोनों (a) और (b)

C

Which of the following item is excluded in Quick Assets :

- (a). Prepaid Expenses  
(b). Inventory  
(c). Cash in hand  
(d). Both (a) and (b)

28. कथन I:- किसी वित्त कंपनी द्वारा उधार पर ब्याज का भुगतान एक परिचालन गतिविधि है।  
कथन II:- लाभांश का भुगतान सभी प्रकार की कंपनियों के लिए एक वित्तीय गतिविधि है।

- (a). दोनों कथन सही हैं।  
(b). दोनों कथन गलत हैं।  
(c). कथन I सही है और कथन II गलत है।  
(d). कथन I गलत है और कथन II सही है।

या

वह मद जो नकदी प्रवाह विवरण में निवेश गतिविधियों के अंतर्गत आती है:-

- (a). ऋणपत्र पर ब्याज का भुगतान किया  
(b). लाभांश प्राप्त हुआ  
(c). बैंक अधिविक्रय का पुनर्भुगतान  
(d). माल की बिक्री

(1)

**Statement I :-** Payment of interest on borrowing by a finance company is an Operating Activity.

**Statement II:-** Payment of dividend is a Financing Activity for all kinds of companies.

- (a). Both statements are correct.  
(b). Both statements are incorrect  
(c). Statement I is correct and statement II is incorrect.  
(d). Statement I is incorrect and statement II is correct.

OR

Item that falls under Investing Activities in the cash flow statement :-

- (a). Paid Interest on Debentures
- (b). Dividend Received
- (c). Repayment of Bank Overdraft
- (d). Sale of Goods

29. निम्नलिखित में से कौनसी लेखांकन अनुपात की श्रेणी है?

- (i) तरलता अनुपात
  - (ii) शोधन-क्षमता अनुपात
  - (iii) लाभ और हानि का विवरण
  - (iv) स्थिति विवरण
- सही विकल्प चुनें :

- (a) (i)
- (b) (i) और (ii)
- (c) (ii)
- (d) (i), (ii) और (iv)

या

'अधिशेष, अर्थात् लाभ और हानि के विवरण में शेष' कंपनी के स्थिति विवरण में इस शीर्ष/उप-शीर्ष के अंतर्गत दिखाई देता है

- (a). अंश पूंजी
- (b). आरक्षित और अधिशेष
- (c). दीर्घकालिक उधार
- (d). अल्पकालिक उधार

(1)

Which of the following is a Category of Accounting Ratios ?

- (i) Liquidity Ratios
- (ii) Solvency Ratio
- (iii) Statement of Profit and Loss
- (iv) Balance Sheet

Choose the correct option :

- (a) (i)
- (b) (i) and (ii)
- (c) (ii)
- (d) (i), (ii) and (iv)

OR

'Surplus, i.e. Balance in Statement of Profit and Loss' appear in the company Balance Sheet Under this Head/ Sub -Head

- (a). Share Capital
- (b). Reserve and Surplus

(c). Long Term Borrowings

(d). Short Term Borrowings

30. निम्नलिखित में से किस लेन-देन का परिणाम 'नकदी का प्रवाह' होता है?

(a) बैंक ऋण पर ब्याज का भुगतान

(b) ₹5,000 बैंक में जमा कराए

(c) बैंक से ₹20,000 नकद निकाले

(d) चालू निवेश की बिक्री ₹ 10,000

(1)

Which of the following transactions result in 'Flow of Cash'?

(a) Payment of Interest on Bank Loan

(b) Deposited ₹ 5,000 into bank

(c) Withdrew Cash from Bank ₹ 20,000

(d) Sale of Current Investment ₹ 10,000

31. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III, भाग I के अनुसार निम्नलिखित मदों को किस शीर्ष और उप-शीर्षक के अंतर्गत एक कंपनी के स्तथि विवरण में रखा जाएगा।

(i) पूंजी शोधन रिज़र्व

(ii) ऋणपत्र

(iii) बकाया लाभांश

(iv) पशुधन

(v) खनन अधिकार

(vi) स्टोर और स्पेयर पार्ट्स

(3)

Under which Head and sub-headings will the following items be placed in the balance sheet of a company as per Schedule III, Part I of the Companies Act, 2013.

(i) Capital Redemption Reserves

(ii) Debentures

(iii) Unpaid Dividend

(iv) Livestock

(v) Mining Rights

(vi) Stores and spare parts

32. (a). एक कंपनी की कार्यशील पूंजी ₹ 3,60,000 है। इसका तरल अनुपात 3:1 है और चालू अनुपात 5 :1 है। तरल परिसंपत्तियाँ और चालू परिसंपत्तियाँ की गणना करें।

(b). निम्नलिखित जानकारी से 'ऋण - समता अनुपात' की गणना करें।

कुल संपत्ति ₹ 7,00,000, कुल ऋण ₹ 5,00,000 और चालू देनदारियाँ ₹ 1,60,000 (3)



(a). Working Capital of a company is ₹ 3,60,000. Its liquid ratio is 3 : 1 and the current ratio is 5 : 1. Calculate quick assets and current assets.

(b). Calculate 'Debt Equity Ratio' from the following information.

Total assets ₹ 7,00,000, Total Debt ₹ 5,00,000 and Current Liabilities ₹ 1,60,000.

33. एमटी लिमिटेड के 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि के विवरण से ज्ञात सूचना से, कंपनी का लाभ और हानि का तुलनात्मक विवरण तैयार करें:

विवरण	31.03.2023 (₹)	31.03.2022 (₹)
प्रचालन से आय	10,00,000	7,50,000
कर्मचारी हित व्यय	5,00,000	4,00,000
अन्य व्यय	2,00,000	1,00,000
कर की दर	50%	50%

अथवा

निम्नलिखित सूचना से आईक्यू लिमिटेड की सामान्य आकार का स्थिति विवरण बनायें।

विवरण	31 मार्च 2023 (₹)	31 मार्च, 2022 (₹)
<b>I समता और देयताएँ</b>		
1. अंशधारी कोष	25,00,000	15,00,000
2. गैर चालू देयताएँ	15,00,000	5,00,000
3. चालू देयताएँ	10,00,000	5,00,000
कुल	<b>50,00,000</b>	<b>25,00,000</b>
<b>II सम्पत्तियाँ</b>		
1. गैर - चालू परिसंपत्तियाँ	35,00,000	15,00,000
2. चालू परिसंपत्तियाँ	15,00,000	10,00,000
कुल	<b>50,00,000</b>	<b>25,00,000</b>

(4)

From the information extracted from the statement of Profit & Loss of MT Ltd for the year ended 31st March 2022 and 31st March 2023, prepare a Comparative Statement of profit & loss:

Particulars	31.03.2023 (in ₹)	31.03.2022 (in ₹)
Revenue from Operation	10,00,000	7,50,000
Employee Benefit Expenses	5,00,000	4,00,000

Other Expenses	2,00,000	1,00,000
Tax Rate	50 %	50 %

OR

From the following information prepare the Common Size Balance Sheet of IQ Ltd.

Particulars	31st March, 2023 (₹)	31st March, 2022 (₹)
<b>I EQUITY AND LIABILITIES</b>		
1. Shareholders Funds	25,00,000	15,00,000
2. Non- Current Liabilities	15,00,000	5,00,000
3. Current Liabilities	10,00,000	5,00,000
<b>Total</b>	<b><u>50,00,000</u></b>	<b><u>25,00,000</u></b>
<b>II ASSETS</b>		
1. Non - Current Assets	35,00,000	15,00,000
2. Current Assets	15,00,000	10,00,000
<b>Total</b>	<b><u>50,00,000</u></b>	<b><u>25,00,000</u></b>

34. स्तिथि विवरण में दिए गए आंकड़ों और अतिरिक्त जानकारी से, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 'परिचालन से नकदी प्रवाह' और 'वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह' की गणना करें।

31 मार्च, 2023 तक आभा लिमिटेड का स्तिथि विवरण

विवरण	नोट सं .	31.03.2023 (₹)	31.03.2022 (₹)
-------	----------	-------------------	-------------------

<b>I समता और देयताएँ</b>			
<b>1. शेयरधारकों की निधि</b>			
(a) समता अंश		4,00,000	3,00,000
(b) संचय और अधिशेष	<b>1</b>	1,00,000	25,000
<b>2. गैर-चालू देयताएँ</b>			
दीर्घकालिक उधार	<b>2</b>	2,00,000	1,50,000
<b>3. वर्तमानदेयताएँ</b>			
(a) व्यापारिक देय		20,000	22,500
(b) बैंक अधिविकर्ष		50,000	42,500
(c) अल्पकालिक प्रावधान	<b>3</b>	15,000	10,000
<b>कुल</b>		<b>7,85,000</b>	<b>5,50,000</b>
<b>II-परिसंपत्तियाँ :</b>			
<b>1. गैर-चालू संपत्तियां</b>			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियां			
(i) मूर्त संपत्तियां			
(ii) अमूर्त संपत्तियां	<b>4</b>	3,00,000	2,50,000
<b>2. चालू संपत्तियां</b>			
(a) मालसूची	<b>5</b>	—	25,000
(b) व्यापारिक प्राप्य		2,50,000	2,00,000
(c) रोकड़ और रोकड़ समकक्ष		2,00,000	45,000
		35,000	30,000
<b>कुल</b>		<b>7,85,000</b>	<b>5,50,000</b>

खातों के नोट्स:

नोट सं .	विवरण	31.03.2023 (₹)	31.03.2022 (₹)
----------	-------	-------------------	-------------------

1	संचय और अधिशेष आधिक्य अर्थात लाभ - हानि विवरण का शेष	1,00,000	25,000
2	दीर्घकालिक उधार 10% ऋणपत्र	2,00,000	1,50,000
3	अल्पकालिक प्रावधान कर का प्रावधान	15,000	10,000
4	मूर्त संपत्तियां मशीनरी संचित मूल्यहास	4,00,000 (1,00,000)	3,25,000 (75,000)
		<b>3,00,000</b>	<b>2,50,000</b>
5	अमूर्त संपत्तियां ख्याति	-	25,000

अतिरिक्त जानकारी :

(1). ₹ 50,000, 10% ऋणपत्र 31.03.2023 को जारी किए गए थे।

(2). वर्ष के दौरान ₹ 20,000 कर का भुगतान किया ।

(6)

From the figures given in the Balance Sheet and additional information, **Calculate 'Cash Flow from Operating Activities' and 'Cash Flow from Financing Activities'** for the year ended 31st March ,2023

Balance Sheet of Abha Ltd as at 31st March, 2023

Particulars	Note	31.03.2023	31.03.2022
-------------	------	------------	------------

	No.	(₹)	(₹)
<b>I- Equity and Liabilities</b>			
<b>1. Shareholders' Funds</b>			
(a) Equity Share Capital		4,00,000	3,00,000
(b) Reserves and Surplus	<b>1</b>	1,00,000	25,000
<b>2. Non-Current Liabilities</b>			
Long-term Borrowings	<b>2</b>	2,00,000	1,50,000
<b>3. Current Liabilities</b>			
(a) Trade Payables		20,000	22,500
(b) Bank Overdraft		50,000	42,500
(c) Short-term Provision	<b>3</b>	15,000	10,000
<b>Total</b>		<b><u>7,85,000</u></b>	<b><u>5,50,000</u></b>
<b>II-Assets :</b>			
<b>1. Non-Current Assets</b>			
<b>Property, Plant and Equipments and Intangible Assets</b>			
(i) Tangible Assets	<b>4</b>	3,00,000	2,50,000
(ii) Intangible Assets	<b>5</b>	—	25,000
<b>2. Current Assets</b>			
(a) Inventories		2,50,000	2,00,000
(b) Trade Receivables		2,00,000	45,000
(c) Cash and Cash Equivalents		35,000	30,000
<b>Total</b>		<b><u>7,85,000</u></b>	<b><u>5,50,000</u></b>

**Notes to Accounts:**

Note No.	Particulars	31.03.2023 (₹)	31.03.2022 (₹)
----------	-------------	-------------------	-------------------

<b>1</b>	<b>Reserve and Surplus</b> Surplus ie. Balance in Statement of Profit and Loss	1,00,000	25,000
<b>2</b>	<b>Long-term Borrowings</b> 10% Debentures	2,00,000	1,50,000
<b>3</b>	<b>Short-term Provisions</b> Provision for tax	15,000	10,000
<b>4</b>	<b>Tangible Assets</b> Machinery <b>Less : Accumulated Depreciation</b>	4,00,000 (1,00,000)	3,25,000 (75,000)
		<b><u>3,00,000</u></b>	<b><u>2,50,000</u></b>
<b>5</b>	<b>Intangible Assets</b> Goodwill	–	25,000

**Additional Information :**

- (1). ₹ 50,000, 10% debentures were issued on 31.03.2023.
- (2). Tax paid during the year ₹ 20,000